

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XX, Tenth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 04, Monday, November 21, 2016/Kartika 30, 1938 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Reported loss of lives of 129 persons and injuries to over 200 in the derailment of Indore Patna Express train at Pokhrayan near Kanpur	8
 ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 61 to 65	9-72
 WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 66 to 80	73-136
Unstarred Question Nos. 691 to 920	137-721

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations to P.V. Sindhu for winning the women's singles title at the China Open Super Series Badminton Tournament on 20 November 2016 in Fuzhou, China

722

STATEMENT BY MINISTER

Accident of Train No. 19321Dn. Indore-Rajendra Nagar Terminal (Patna) Express between Pokhrayan and Malasa stations of Jhansi Division of North Central Railway on 20.11.2016

Shri Suresh Prabhu

723-725

PAPERS LAID ON THE TABLE

727-733

ELECTION TO COMMITTEE

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority

734

MOTION RE: 36TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

735

GOVERNMENT BILLS - INTRODUCED

(i) Surrogacy (Regulation) Bill, 2016

736

(ii) Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016

737

MATTERS UNDER RULE 377

739-763

- (i) Need to run a new express train with AC coaches between Bagaha and Patna and also to improve railway services in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand

Shri Satish Chandra Dubey

740

- (ii) Need to amend The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 to restrict the display of National Flag in the electoral symbol by political parties

Shri Gopal Shetty

741

- (iii) Need to set up a centre of Lalit Kala Akademi in Meerut, Uttar Pradesh
Shri Rajendra Agrawal 742
- (iv) Need to expedite construction of Pachnada Barrage Project in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Shri Bhanu Pratap Singh Verma 743
- (v) Need to fix the uniform age of retirement for doctors
Shri Devendra Singh Bhole 744
- (vi) Need to improve services at Centres of Kiosk Banking operated by various Nationalised Banks in Palamu district, Jharkhand
Shri Vishnu Dayal Ram 745
- (vii) Need to have a Uniform Civil Code in the country
Yogi Adityanath 746
- (viii) Need for development of solar and wind energy projects in Himalayan States
Dr. Ramesh Pokhriyal 'Nishank' 747
- (ix) Need to convert National Highway Nos. 76 and 86 passing through Hamirpur parliamentary constituency, Uttar Pradesh into four lane
Kunwar Pushpendra Singh Chandel 748
- (x) Need to construct Railway Over Bridge at railway crossing No. 385B in Rampur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
Dr. Nepal Singh 749

- (xi) Need to include airports in Leh, Kargil, Ladakh, Andaman and Lakshadweep in the Regional Connectivity Scheme
- Shri Thupstan Chhewang 750
- (xii) Need to regularise the services of para teachers in Jharkhand and also enhance their honorarium
- Shri Ravindra Kumar Pandey 751
- (xiii) Need to reduce the weight of school bags
- Dr. Virendra Kumar 752
- (xiv) Need to ensure timely repair, inspection and maintenance of railway tracks
- Shri Mullappally Ramachandran 753
- (xv) Need to grant permission for development of infrastructure in tribal colonies of Chamarajanagar Parliamentary Constituency in Karnataka
- Shri R. Dhruvanarayana 754
- (xvi) Need to allow Primary Cooperative Credit Societies and District Central Cooperative Banks to accept the demonetised Currency notes
- Shri V. Elumalai 755
- (xvii) Regarding upgradation and expansion of Thoothukudi Railway station in Tamil Nadu
- Shri J. J. T. Natterjee 756
- (xviii) Need to review the decision on demonetisation of currency notes
- Prof. Saugata Roy 757

- (xix) Need to accord notified depot status to FCI Depot at Borivali in Mumbai
Shri Gajanan Kirtikar 758-759
- (xx) Need to accord cabinet approval for special Financial Package to Andhra Pradesh
Shri M. Murli Mohan 760
- (xxi) Regarding problems of district cooperative banks and agriculture credit societies in Kerala in the wake of demonetisation
Shri P. K. Biju 761
- (xxii) Regarding alleged violation of labour laws by ITC Paper Mill in Telangana
Shri P. Srinivasa Reddy 762
- (xxiii) Need to set up an ESIC Multi-Speciality Hospital in Bhagalpur, Bihar
Shri Shailesh Kumar 763

ANNEXURE – I

- Member-wise Index to Starred Questions 765
Member-wise Index to Unstarred Questions 766-772

ANNEXURE – II

- Ministry-wise Index to Starred Questions 773
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 774

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, November 21, 2016/Kartika 30, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Reported loss of lives of 129 persons and injuries to over 200 in the derailment of Indore Patna Express train at Pokhrayan near Kanpur

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 20 नवम्बर, 2016 को उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट पुखरायां में इन्दौर-पटना एक्सप्रेस रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण अभी तक जो प्राप्त जानकारी मेरे पास है और भी आगे कुछ हो सकता है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 129 व्यक्तियों के मारे जाने तथा 200 व्यक्तियों के घायल होने की जानकारी मिली है।

सभा इस दुःखद दुर्घटना पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है। इससे शोक संतप्त परिवारों को अत्यधिक दुःख और क्षति हुई है तथा सभा घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की कामना करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

11.02 hours

(The Members then stood in silence for short while.)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, आज आप एडजर्नमेंट मोशन ले लीजिए।... (व्यवधान) Let the discussion start. ... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : नो, नथिंग।

... (व्यवधान)

11.04 hours

(At this stage Shri Kalyan Banerjee, Shri K. C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर।

11.05 hours**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS****HON. SPEAKER:** Q. No. 61. Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava.**(Q. 61)**

... (व्यवधान)

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा: अध्यक्ष महोदया, बेटी बिना मां नहीं, मां बिना संसार नहीं, ... (व्यवधान) इसलिए हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने जिस तरह बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए बल दिया है।... (व्यवधान) इसी तरह, इसी के अंतर्गत हिन्दुस्तान की धरती पर जन्म लेने वाली हर बेटी का सौ प्रतिशत नामांकन हो और उसे गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, ... (व्यवधान) इसके लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं, ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, जैसा मैंने सवाल के जवाब में बताया है, ... (व्यवधान) ऐसी स्थिति पहले थी, जब कम लड़कियां स्कूल में जाती थीं और लड़कों का अनुपात ज्यादा होता था।... (व्यवधान) लेकिन अब पिछले दिनों से 'सर्व शिक्षा अभियान' के साथ जो शिक्षा का प्रचार हुआ, उसके कारण गर्ल्स का एनरोलमेंट 49 प्रतिशत हो गया है। ... (व्यवधान) लड़कों का 51 परसेंट एनरोलमेंट हो गया है और कुछ राज्यों में लड़कियों के एनरोलमेंट का ज्यादा प्रतिशत है। समाज में लड़कियों का जो अनुपात है, उसी के अनुसार शिक्षा में भी उनका अनुपात बढ़ा है। यह बहुत बड़ी सफलता है।... (व्यवधान) वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया था और यह उसका परिणाम है कि 15 साल में इतना विस्तार हुआ है और आज सभी को शिक्षा मिल रही है।... (व्यवधान)

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा: मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र बारदोली के सूरत जिले में ग्रामीण बच्चों के शिक्षा हितों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की सुविधा नहीं है।... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सूरत जिले में इस विद्यालय की सुविधा कब तक हो पाएगी।... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, मैं दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। वर्ष 2001 के बाद शिक्षा के विस्तार में बहुत बड़ी सफलता मिली है।... (व्यवधान) आज 14.5 चौदह लाख स्कूल हैं और अपर प्राइमरी के ढाई लाख स्कूल हैं।... (व्यवधान) स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्शाती है कि गांव-गांव तक शिक्षा

पहुंची है और कुछ राज्यों में, जहां टीचर्स की कमी थी, वहां टीचर्स की भर्ती करने के सार्थक प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी 17 परसेंट वैकेंसीज खाली हैं।... (व्यवधान) इन वैकेंसीज को भरने के लिए हम पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन यह राज्यों का काम है इसलिए राज्य सरकारों को इस विषय में काम करना चाहिए।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Arvind Sawant Ji is not here. Shri Pralhad Joshi.

SHRI PRALHAD JOSHI: Thank you for giving me an opportunity. ...
(Interruptions)

As told by the hon. Minister, *Sarva Shiksha Abhiyan* was started by Shri Atal Bihari Vajpayee. It is one of the best schemes for building up the infrastructure, for the appointment of teachers and everything. But recently, there are issues as far as girl education is concerned. In many schools and in Government colleges, even in States like Karnataka, there is a lack of toilet facility for students and especially for the girl students. ... (Interruptions)

The second thing is that there are so many dilapidated buildings even today after the implementation of *Sarva Shiksha Abhiyan*. The Government of Karnataka is not releasing any fund for the classroom construction. If you ask them, they are telling that now the *Sarva Shiksha Abhiyan* fund in Karnataka is being used only for the purpose of the salary component. So, what is the exact status? And what exactly is the hon. Minister doing as far as building of toilets is concerned? I want to ask whether he is going to appeal all the major companies to use their CSR funds apart from the Government companies/Public Sector Undertakings. He can make a request to the private companies also to construct toilets in the schools. This is my question. ... (Interruptions)

About the *Sarva Shiksha Abhiyan* fund, for the construction of classroom, is he going to provide fund to Karnataka?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर अगले प्रश्न संख्या-62 में है, लेकिन मैं अभी इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा वेल में खड़े सदस्यों से निवेदन है कि आप टीवी पर आना चाहते हैं। मैं टीवी वालों को कहूँगी कि आप अपनी मर्यादा में रहे हैं और हिंदुस्तान देखें। They will show you all on TV. Let them show on TV. Please do not disturb the Minister.

... (व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा विपक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी अपना आसन स्वीकार करें और सदन का कामकाज चलने दें।... (व्यवधान) पूरा देश एक सुर से, एक मन से मोदी जी के द्वारा उठाए गए नोटबंदी के निर्णय के पक्ष में है। इस बारे में किसी के भी मन में दुविधा नहीं है।... (व्यवधान) मैं कांग्रेस के मित्रों को, तृणमूल के मित्रों को और कम्युनिस्ट मित्रों को कहना चाहूँगा कि काले धन, जाली नोट या फर्जी नोट और आतंकवाद को मिटाने के पक्ष में हम सब हैं।... (व्यवधान) और जो कठिनाइयाँ हैं, उन पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं।... (व्यवधान) आम जनता की, आम नागरिक की और किसानों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए मोदी सरकार तैयार है, इस बारे में मैं आश्वस्त करना चाहूँगा।... (व्यवधान) इस विषय पर चर्चा और बहस के लिए हम तैयार हैं और उस बहस का जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं।... (व्यवधान) यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please listen to me for one minute.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आपका अडजर्नमेंट मोशन स्वीकार नहीं किया जा रहा है।... (व्यवधान) यदि आप टीवी पर दिखना चाहते हैं तो मैं जरूर लोक सभा टीवी से कहूँगी कि वह दिखाते रहें But do not disturb the Minister. मैं हाउस को एडजर्न नहीं कर रही हूँ।... (व्यवधान) आप टीवी पर जरूर दिखाए जाएंगे, but do not disturb the Minister. जो भी हल्ला कर रहे हैं, उनको दिखा दीजिए।... (व्यवधान) इनको सबको दिखने दीजिए, पूरे हिन्दुस्तान को देखने दीजिए। आप लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम स्पीकर, हमारी मंशा हाउस को... (व्यवधान) हम टीवी के लिए पैदा नहीं हुए हैं।... (व्यवधान) हम लोग जनता की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहते हैं।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am ready to listen you.

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आज जनता को तकलीफ हो रही है।... (व्यवधान) लाइन में खड़े लोग मर रहे हैं।... (व्यवधान) हजारों लोग इन्जर्ड हो रहे हैं। हम लोग उनका दर्द बताने आए हैं।... (व्यवधान) आज देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसलिए हम लोग आपके सामने एडजर्नमेंट मोशन के तहत डिसक्शन करना चाहते हैं, रूल 56 के तहत चर्चा करना चाहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग डिसक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ऐसी चर्चा क्यों मांग रहे हैं ?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम चर्चा से भागना नहीं चाहते हैं।... (व्यवधान) हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को उस समय हाउस में आना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस तरह का आग्रह क्यों कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : प्राइम मिनिस्टर को हाउस में आना चाहिए और हमारी बात को उन्हें सुनना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य मिनिस्टर के सामने आ रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। जो मिनिस्टर के सामने बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वह लोग टीवी में आना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम अपनी बात को रखेंगे।... (व्यवधान) अपोजिशन के सभी लीडर्स तैयार हैं।... (व्यवधान) हम चर्चा के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको चर्चा मिलेगी।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है।... (व्यवधान) चर्चा को 193 के तहत रख कर, प्रधानमंत्री चर्चा से भाग रहे हैं।... (व्यवधान) वह बाहर चर्चा कर रहे हैं।... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Mr. Minister.

... (Interruptions)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, जो सवाल पूछा गया है, वह टॉयलेट के बारे में है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने टॉयलेट बनाने के कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त, 2015 को की थी।... (व्यवधान) पिछले एक वर्ष में साढ़े चार लाख स्कूलों में टॉयलेट का यह कार्यक्रम पूरा हो गया है।... (व्यवधान) अब एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, जहां लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट न हो।... (व्यवधान) जहां तक इनकी संख्या बढ़ाने

की बात है, वह निरन्तर चलने वाला काम है।... (व्यवधान) जहां लड़कियों की संख्या ज्यादा है, वहां उसको बढ़ाने का काम प्रगति पर है।... (व्यवधान)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं, जिनमें निःशुल्क वर्दियां, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, उनके लिए आवासीय विद्यालय और साइकिल इत्यादि दिए जाने से बालिका शिक्षा में वृद्धि हुई है।... (व्यवधान) लेकिन अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, वहां आज भी बालिका विद्यार्थियों के द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने का प्रतिशत ज्यादा है।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, वहां बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों को चिन्हित करके, वहां हायर सेकेण्डरी विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ट्राइबल लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा कैसे हो। अनेक राज्यों में ट्राइबल के आश्रम स्कूल्स हैं, वहां लड़कियों का अलग स्कूल है और जो 3600 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, वहां सब जगह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के रूप में स्कूल और छात्रावास दोनों शामिल हैं। इसके अलावा एस.सी., एस.टी., माइनोरिटीज, ऑरफन, डिसएडवांटेज ग्रुप, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी इन सब बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रधान मंत्री जी का हमेशा आग्रह रहा है। मुझे खुशी है कि यह पहली योजना है कि जो काफी मात्रा में अच्छी तरह से सफल हुई है और 3600 से ज्यादा विद्यालय और छात्रावास अच्छी तरह से चल रहे हैं।

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas have been opened in the most educationally backward blocks, where female rural literacy rate is below national average. ... (*Interruptions*) I would like to bring it to the kind attention of the hon. Minister that teachers who are working in these schools are not paid salaries regularly. I would like to ask the hon. Minister if efforts are being made to see that regular payments are made to these teachers. ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: The Sarva Shiksha Abhiyan under Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas is going on smoothly.... (*Interruptions*) Salary is a regular thing. The State Governments are distributing the salaries. If there are any specific complaints, I would request the hon. Member to bring it to me. I will definitely look into it. ... (*Interruptions*)

In addition to this, the Government is also taking care of girls' hostel for students of secondary and higher secondary schools. So, there is no general complaint. But if the hon. Member brings any specific complaint to my notice, I will definitely look into it. ... (*Interruptions*)

(Q.62)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to speak on the education facility and infrastructure available to the students studying in rural areas. I thank the hon. Minister for his elaborate reply in this matter. ... *(Interruptions)*

Even today, after two years of implementation of the Right to Education Act, 95.2 per cent of schools are yet to get infrastructure as promised under the Right to Education Act. I thank the hon. Minister and the Union Government for providing funds to Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan as well as Beti Bachao Beti Padhao Scheme. These all have very commendable features.... *(Interruptions)*

Madam, I would like to bring it to the notice of the hon. Minister that even today one of 10 schools has no drinking water facility. ... *(Interruptions)* There are no separate toilets for boys and girls in rural areas because of which many students are dropping out from schools. Moreover, the class rooms have been left unfinished. ... *(Interruptions)* The Sarva Shiksha Abhiyan grant which is given by the Central Government has been diverted by the States and the school buildings are in a condemned state and are left unfinished. ... *(Interruptions)*

I would like to know from the hon. Minister if there is any scheme worked out to monitor the end use of this fund which is given by the Union Government. ... *(Interruptions)* We have also submitted this report through DISHA, but no action has been initiated. How do the hon. Minister propose to monitor the end use of funds given to the States? ... *(Interruptions)*

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: We always ensure and do continuous monitoring of the end use of funds allotted for the specific purpose. But we would like to have more concrete suggestions as to how we monitor it more effectively. It is public money; it is the money of the poor people, which is going for educating the poor students. ... *(Interruptions)* If that money is not put to use exactly in the

same fashion which it is allotted for, it is a matter of great concern. I would like to ensure that it will not happen. ... (*Interruptions*)

As far as drinking water facility is concerned, let me tell you that it is not one out of three but it is 3 per cent of schools, which do not have drinking facilities. ... (*Interruptions*) We have 14.5 lakh schools out of which only 37,000 schools are left. We will ensure that these schools are primarily provided drinking water facilities. ... (*Interruptions*)

As far as the boundary wall is concerned, I appeal to the village panchayats that they should come forward. Education is a community service and it has to get community support. Therefore, why will gram panchayats not have erected the boundary walls? It can be a wire mesh and cactus and squeeze. We can make boundaries. Villages can take upon themselves this responsibility. ... (*Interruptions*) We will build the ramp, but in making playgrounds, ultimately, it is the village which also needs to participate. So, we want to upgrade the infrastructure as soon as possible. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Madam, I thank the hon. Minister for his reply. ... (*Interruptions*)

There is dearth of physical infrastructure which is adding to the problem. Many schools are having teacher-student ratio of 1:30. There is also a dire need to improvise the quality education in the rural areas. So, physical infrastructure is a major challenge and due to the lack of quality education, many students, who have passed out graduation, are today not able to secure jobs. It is because the education that they have undergone was not quality based. ... (*Interruptions*)

The only way out to face this problem is digitization of education. There are many proposals for introduction of digital classrooms and smart classrooms by the Union Government. Does the Government propose any scheme to digitize? Basically with reference to the tribal and rural areas, does the Government evolve a scheme to digitize the classrooms and provide quality education to the children of rural and tribal areas? ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As far as primary education is concerned, there is a necessity of teacher-pupil contact. Therefore, we are already preparing courses for digitization from 9th class onwards, but till 9th class also, there will be a component of digitization which will be spread all over the country. ...
(Interruptions)

The issue is that we are appointing teachers from Sarva Siksha Abhiyan. We sanctioned 19.48 lakh posts of teachers out of which 15.74 lakh teachers have been appointed. So, there is actually no dearth of teachers. There are only 17 per cent vacancies. What happens is that deployment of teachers in rural areas is not done. People remain at district places. People try to remain at metro places. Therefore, in the rural areas, we have one lakh schools which are one-teacher schools. This is really an agony. Therefore, we want proper deployment of teachers. ... (Interruptions)

Lastly, we had CABE meeting where all States' Education Ministers were there. We have shown them how deployment is not happening to rural areas. So, we have discussed elaborately how to deploy teachers and how to ensure that somebody who has served in the rural area will come to semi-urban area and then, how he will be come to urban area and subsequently to metro area. So, there will be a logical transfer policy. That is what we have discussed. ... (Interruptions)

श्री उदय प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है। ... (व्यवधान इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, जैसे खेल के मैदान हैं, बाउंड्री वॉल है और ऑडिटोरियम आदि स्कूलों में हैं। ... (व्यवधान) मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश और संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद की बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अधिकांश जो भवन बने हैं, वे बगैर खेल के मैदान और बगैर बाउंड्री वॉल के बने हैं। ... (व्यवधान) क्या भविष्य में मंत्रालय की ऐसी कोई योजना है कि जब भवन की योजना बनाएंगे तो उसमें साथ में ही खेल का मैदान और बाउंड्री वॉल शामिल करने का काम करेंगे? ... (व्यवधान) दूसरा, जिन हाई स्कूलों और हायर सैकेंड्री स्कूलों में अभी बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल के अभाव में लोग और जो

स्थानीय व्यवस्था है, वह भवनों को क्षति पहुंचाती है, नुकसान करती है। ... (व्यवधान) क्या उन भवनों की बाउंड्री वॉल्स का निर्माण करने के लिए सरकार की कोई योजना है? ... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि बाउंड्री वॉल हमारे कार्यक्रम का और राइट टू एजुकेशन का हिस्सा है। ... (व्यवधान) मैं अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग 40 फीसदी जगहों पर स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है ... (व्यवधान) अब यह संख्या बढ़ी है। ... (व्यवधान) यह संख्या चार लाख की है। ... (व्यवधान) जैसे हमने चार लाख जगह टॉयलेट का काम किया, वैसे ही चार लाख जगह बाउंड्री वॉल के लिए ग्राम पंचायत और गाँव क्यों नहीं सामने आयेगा। ... (व्यवधान) राइट टू एजुकेशन में कोई पाबन्दी नहीं है कि समाज और कम्युनिटी भी उसको मदद करे और गाँव पहले से एजुकेशन में काम करने के लिए तैयार था। ... (व्यवधान) हम उसी भाव को बढ़ावा भी देना चाहते हैं। ... (व्यवधान) जो सवाल आपने प्लेग्राउन्ड्स के बारे में पूछा है, जो स्कूल पहले बने हैं, जहाँ प्लेग्राउन्ड नहीं है, राज्य सरकारें इसे सैंक्शन करती हैं। ... (व्यवधान) उन्हें प्लेग्राउन्ड्स के लिए जगह रखने का प्रोविजन रखना चाहिए, हमने उन्हें यह एडवाइस दी है। ... (व्यवधान) इसे राज्य सरकारें करती हैं। ... (व्यवधान) उसे हम यहाँ से नहीं करते हैं। ... (व्यवधान) जहाँ तक केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों की बात है, उनमें पर्याप्त ग्राउन्ड और प्लेग्राउन्ड्स होते हैं। ... (व्यवधान)

SHRI C.K. SANGMA: Thank you, Madam. ... (*Interruptions*) The hon. Minister had just mentioned about teachers being put in all different schools. ... (*Interruptions*) Though, the number of teachers might be enough or at least, to some extent, might be covering a number of schools, but the quality is an issue that is of big concern. ... (*Interruptions*) I want to give an example of my Constituency. ... (*Interruptions*) In Class 10th Metric results, we have a pass percentage of only 25 per cent every year, and the main reason for this is that the education quality that is there at the grass-root / primary level is very low. ... (*Interruptions*)

My Question to the hon. Minister is this. ... (*Interruptions*) In my State, the *Sarva Shiksha Abhiyan* teachers who are supposed to get a specific amount of salary has not been cleared yet. ... (*Interruptions*) It has not been passed yet and the Government of Meghalaya is planning to reduce the amount. ... (*Interruptions*)

Is the Government contemplating on improving the minimum salary of teachers throughout the country? ... (*Interruptions*) Today, teachers suffer as they are being paid Rs. 3,000, Rs. 4,000 or Rs. 5,000 per month, which is really unfair. ... (*Interruptions*) I think that the quality of education can go up only when we start taking care of our teachers. ... (*Interruptions*) Is the Government planning to have a minimum salary structure for teachers throughout the country? ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : Madam, all over the country, all those permanent teachers are getting salary based on the 6th Pay Commission's recommendations and various States have adopted it in a different fashion as per their financial ability, but essentially we are giving grant as per the 6th Pay Commission's recommendations. ... (*Interruptions*) So, the salary of permanent teachers is not the issue. ... (*Interruptions*) The issue is of salary for those *ad hoc* teachers or those who are in the process to become permanent teachers. Every State has a right to give them package and many States are giving Rs. 15,000 whereas some States are giving Rs. 5,000. ... (*Interruptions*) This variation in salary has been discussed with all Education Ministers and we have asked them to give maximum salary. ... (*Interruptions*)

But the important question that the hon. Member has asked is about the quality of teaching. ... (*Interruptions*) Therefore, let me make one major announcement. ... (*Interruptions*) As regards quality outcomes, what the students must get in the 1st, 2nd or 3rd standard for that Learning Outcomes, we are going to make Rules as per the Rules of Right to Education Act. ... (*Interruptions*) For the last 10 years these Rules for Learning Outcomes were not made. ... (*Interruptions*) Now, we are going to make it. ... (*Interruptions*) We are in the final stage and very soon we will have the Rules. ... (*Interruptions*) So, definitely, there will be Learning Outcomes; everybody will know what quality should be expected; and that will be the accountability of the teachers. ... (*Interruptions*)

श्री अजय मिश्रा टेनी: महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।...(व्यवधान) जैसे हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे हमारे काफी लोग परेशान भी हैं, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति भारत सरकार लायेगी।...(व्यवधान) इस देश को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम होने वाले हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ।...(व्यवधान) मेरा प्रश्न विशेषकर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।...(व्यवधान) उन्होंने जो उत्तर दिया है, उसमें जो स्टेट के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, वह 3,36,543 की सैंक्शन संख्या है।...(व्यवधान) एस.एस.ए. के द्वारा 4,23,355 की संख्या है।...(व्यवधान) इस तरह कुल 7,59,898 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी।...(व्यवधान) इसके सापेक्ष हम लोगों की नियुक्ति प्रदेश में कुल 5,85,232 है और रिक्तियों की संख्या 1,74,666 है, जो 22-23 प्रतिशत है। ... (व्यवधान) पूरे देश में जो 17 प्रतिशत रिक्तियाँ हैं, यह उनके सापेक्ष बहुत ज्यादा है। ... (व्यवधान) इसके साथ-साथ जो अन्य इनफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है, हमारे यहाँ 38 प्रतिशत ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली नहीं है, पाँच प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में पानी नहीं है। ... (व्यवधान) 41 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटी नहीं है। 62 प्रतिशत सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहाँ प्रयोगशाला नहीं है और 20 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में बैठने के डैस्क और बैंच की भी असुविधा है। ... (व्यवधान) इसके अलावा शिक्षा के स्तर की बात करें तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में परीक्षा प्रणाली ऐसी है कि जहाँ कक्षा आठ तक के सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने की व्यवस्था है। ... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो बुनियादी कमियाँ हैं, उनको उत्तर प्रदेश में दूर करने के लिए और परीक्षा प्रणाली को ऐसा बनाने के लिए कि जब तक उस स्तर तक विद्यार्थी न पहुँचे, उसकी कक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? ... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : पहले ही जैसे हमने जवाब दिया है कि हम लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन कर रहे हैं और वह रूल्स में लाएँगे, लेकिन इसमें शिक्षकों की, स्कूलों की तथा राज्यों की भी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ-साथ पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा लेनी है या नहीं, इसके बारे में केब की मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ और राज्य सरकार को केन्द्र ने सिफारिश की है कि पाँचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षा लेने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा जाए क्योंकि 28 से ज्यादा राज्य आज ये परीक्षाएँ करना चाहते हैं, नहीं तो किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती और क्वालिटी मार खा रही है। ... (व्यवधान)

जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल पूछा है, हमने एसएसए के अंडर 4,23,000 टीचर्स की पोस्ट्स सैंक्शन की हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल 3,71,000 की भर्ती की है। 50,000 टीचर्स हमने मंजूर किए हैं, लेकिन उन्होंने भर्ती नहीं किए हैं। तो ये वैकेंसीज़ राज्य सरकार को भरनी चाहिए, हम इसके लिए फिर से लिखेंगे। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, next Question. Q. No. 63.

Kunwar Bharatendra Singh -- not present.

Shri Mohite Patil Vijaysinh Shankarrao -- not present.

Now, Mr. Minister may please reply.

... (*Interruptions*)

(Q. 63)

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Thank you, Speaker Madam, for giving me an opportunity to ask a Question. ... (*Interruptions*) The Jagdishpur-Haldia pipeline project, which was stalled for quite long, has been reactivated after the new Government came into power. ... (*Interruptions*) We must thank the Government and the hon. Minister for this initiative. ... (*Interruptions*)

My specific Question to the hon. Minister, through you, is this. ... (*Interruptions*) Is Balasore District of Odisha, which I represent in the Lok Sabha, going to be benefited from this particular gas pipeline project or not? ... (*Interruptions*) If so, what is the schedule of that, and when are the 13 Districts of Odisha, that are enlisted here, going to get the benefit? ... (*Interruptions*) What is the timeline for it? ... (*Interruptions*) More specifically, is my District of Balasore, which is not finding a place in the list that the hon. Minister has furnished, going to get benefit from this gas grid? ... (*Interruptions*) Thank you. ... (*Interruptions*)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN : Madam, the Constituency represented by the hon. MP is not there in the present arrangement, but certainly in the new pipeline from Dhamra to Duttapulia, the border of Bangladesh through Kolkata and Haldia. ... (*Interruptions*) In that pipeline, the Balasore Constituency will be connected and I think that a part of hon. Member's Constituency, which is coming in Bhadrak District, will be part of this project. ... (*Interruptions*) This is a new pipeline from Dhamra to Duttapulia. ... (*Interruptions*) In this pipeline his Constituency will be connected. ... (*Interruptions*)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरी समझ में नहीं आता कि अगर लोगों को तकलीफ है और आप उसे उठाना चाहते हैं, लोगों की तकलीफ को सामने रखना चाहते हैं तो चर्चा कीजिए। हल्ला करने से तो लोगों की तकलीफ पर चर्चा नहीं हो सकती।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now next question. Q. No. 64 - Prof. Saugata Roy.

... (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: Now, the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

(Q. 64)

श्री रामेश्वर तेली: माननीय अध्यक्ष महोदया, सौगत राय जी ने चाय बागान के बारे में पूछा था।... (व्यवधान) मैं असम से आता हूँ और मेरे क्षेत्र में बहुत-से चाय बागान हैं।... (व्यवधान) मैं अपनी सरकार को अनुरोध करता हूँ कि हमारी भारत सरकार की एन्ड्र्यू यूल कंपनी के करीब दस चाय बागान असम में हैं और बंगाल में शायद चार बागान हैं।... (व्यवधान) यह एन्ड्र्यू यूल कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है।... (व्यवधान)

हमारी सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारी असम सरकार की असम टी कॉर्पोरेशन के करीब 15 चाय बागान हैं और उसकी हालत बहुत खराब है।... (व्यवधान) यहां जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस की असम में करीब 60 साल सरकार थी और उन्हीं के शासनकाल में उन चाय बागानों की हालत बहुत खराब हो गयी है।... (व्यवधान) मैं भारत सरकार से, अपनी सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एन्ड्र्यू यूल कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो जो ये असम सरकार के 15 चाय बागान हैं, उन्हें भी एन्ड्र्यू यूल कंपनी द्वारा ले लिया जाए।... (व्यवधान) कुछ दिनों पहले मैं एन्ड्र्यू यूल कंपनी के चेयरमैन से मिला था।... (व्यवधान) उन्होंने कहा था कि अगर भारत सरकार ऐसा चाहती है तो हम ये चाय बागान जरूर लेंगे।... (व्यवधान) इन 15 चाय बागानों में करीब पचास हजार लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं।... (व्यवधान) इसलिए मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि असम सरकार की ए.टी.सी. के 15 चाय बागानों को भारत सरकार द्वारा ले लिया जाए।... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, the hon. Member has voiced the concerns about the tea estates in Assam, particularly Andrew Yule -- the Company that he is referring to -- which belongs to the Ministry of Heavy Industries. If the State Government concerned approaches the Tea Board, we are willing to facilitate anything that they would want us to do. We do recognize, in Assam, the small tea growers make a big contribution. If there is a problem, we will always address it. ... (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चाय बागानों की तरफ दिलाना चाहता हूँ।... (व्यवधान) जैसे आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां के जो छोटे किसान हैं, उनके पट्टों को रद्द कर दिया है और उन्हें लाइसेंस नहीं दिया है।... (व्यवधान)

अध्यक्षा जी, मैंने पिछली बार भी यह सवाल आपके माध्यम से मंत्री जी से किया था।... (व्यवधान)
पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार भी उन किसानों की चिंता नहीं कर रही है और इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण वे चाय बेच नहीं पाते हैं।... (व्यवधान) ऐसे किसान, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, राज्य सरकार उनका ध्यान नहीं रखती है और उनके पट्टे को कैंसल करके दूसरे को देना चाहती है।... (व्यवधान)

क्या भारत सरकार इस मामले में कड़ाई के साथ हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने यह सवाल सदन में पूछा था।... (व्यवधान) मैं सरकार को बधाई दूंगा कि आपने हस्तक्षेप किया था, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इसके लिए नहीं मानती है तो उन किसानों का इसमें क्या गुनाह है... (व्यवधान) किसान लुट-पिट रहे हैं, मजदूर भूखे मर रहे हैं।... (व्यवधान) उनके परिवार और परिजन भूखों मर रहे हैं।... (व्यवधान)

क्या आप सख्ती के साथ इस मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे?... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, the hon. Member is raising a very, very important issue. I had visited the North Bengal Tea Gardens once in May, 2015 and, again, in January, 2016. But when my visits happened, they were to the large tea gardens. However, even smaller tea growers met me at that time and, post that, the hon. Member also has raised this issue. If the Member concerned brings the delegation of these people I assure him that we will definitely look into this matter. ... (*Interruptions*)

(Q. 65)

श्रीमती कमला पाटले: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि देश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में ऐसे बेरोजगारों, जिनकी जमीन पॉवर प्लांट्स, उद्योगों द्वारा अधिगृहीत की गई है, क्या उन पॉवर प्लांट्स, उद्योगों में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई है। ... (व्यवधान) ऐसे बेरोजगार लोगों को प्राप्त मजदूरी के रूप में चार से पांच हजार रूपए वेतन मिलता है, जबकि उसी पॉवर प्लांट में बाहर के रखे गये लोगों को 10 से 15 हजार रूपए मिलते हैं, क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाई है। ... (व्यवधान)

SHRI BANDARU DATTATREYA: Hon. Speaker, the question is whether the workers of the power plants would be employed especially in the case of Chhattisgarh. I have to seek the information from the State Government and also from the concerned Ministries. ... (*Interruptions*) The top priority of our Government is employment generation. Our Government is committed to providing special security. We are also for providing wage security. That is why, our Government is sensitive towards generating employment through various schemes. It includes the flagship programmes of the Prime Minister like Make in India, Digital India and Start-Up India. These three are the flagship programmes. ... (*Interruptions*) There is another programme called 'Start-Up India'. According to these Reports, our top priority is on employment.

Now, the initiatives which we have taken under Pt. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushal Yojana provide placement by linking it to training. According to this, by 2017, we are going to provide ten lakh employment to the youth. The second initiative is about apprentice. Under this Apprentice programme, I want to impress upon the hon. Member that under this Apprentice Amendment Scheme, we are going to provide one lakh trade apprentice in the MSME sector. Like that, we have opened eight Regional Vocational Training Institutes in which women participation is more. That is why, our Government is sensitive towards employment generation and the initiatives taken are very high. ... (*Interruptions*)

श्रीमती कमला पाटले: गांव में बड़े किसान के यहां 20 से 25 मजदूर काम करते हैं, लेकिन किसान की जमीन का अधिग्रहण हो जाने के कारण ऐसे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं । ... (व्यवधान) क्या सरकार ने ऐसे बेरोजगारों को उस स्थान पर स्थापित उद्योग, पॉवर प्लांट्स में रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है? ... (व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : फ़ैक्ट्री के लिए जिनकी लैंड चली जाती है, उनके लिए तथा उनके लड़कों के लिए प्रावधान रहता है, उस प्रावधान के अनुरूप उनको इंप्लायमेंट मिल सकता है। ... (व्यवधान) जो प्रश्न पूछा गया है, उसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा ... (व्यवधान)

दूसरा, मैं उनको यह बात भी बताऊंगा कि हमारी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एक नई स्कीम आई है। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने इस साल में एक हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए बजट सैंक्शन किया है। ... (व्यवधान) From that, we are contributing 8.33 per cent of the EPF amount to the employer who gives new employment jobs. That is why, new employment job is more important. We are taking this up under the Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana.

श्री अभिषेक सिंह: अध्यक्ष महोदया, हाल ही में भारत की लेबर और इंप्लायमेंट रिपोर्ट, 2016 इस देश के सामने आई थी। ... (व्यवधान) इस रिपोर्ट के कुछ बड़े महत्वपूर्ण पहलू मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। ... (व्यवधान) उस रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन थी कि भारत के आर्थिक विकास का आधार मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर को होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में इम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सबसे बेहतर होती है। इसका मतलब जॉब के टिकाऊ रहने की संभावना सबसे मजबूत होती है। ... (व्यवधान) मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री जी और आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया मिशन और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को हम इस देश के सामने लेकर आए हैं।

महोदया , उस रिपोर्ट में एक और विषय है, जिसमें भारत की लेबर फोर्स का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है, जो महिलाओं का है, जिन्हें नए और बेहतर रोजगार की आवश्यकता है। ... (व्यवधान) मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस देश की ओवरऑल इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में अधिक से अधिक हो, उस दिशा में भारत सरकार की क्या योजनाएं हैं? ... (व्यवधान)

SHRI BANDARU DATTATREYA: The hon. Member has asked very important questions, Madam. One is regarding the manufacturing sector which is very important for workers' wage security. ... (*Interruptions*) As regards the MSME sector I have already informed that the Apprentices (Amendment) Act which we have brought in gives more number of seats and all MSME sectors are provided for stipend. ... (*Interruptions*) The Government of India gives 50 per cent of stipend to MSMEs and it is increased from Rs.3,500 to Rs.7,000. Like that more incentives are being given to the MSME sector so that employment can be generated. ... (*Interruptions*)

A very important question the hon. Member has raised is about the manufacturing sector which gives permanent employment. Skill India is the flagship programme of the hon. Prime Minister. ... (*Interruptions*) Under the Skill India the hon. Prime Minister has initiated programmes among 23 Ministries. We gave 80 lakh skill development programmes last year to NSDC. ... (*Interruptions*) In our Department also one of our top priorities is women. As I have already stated, we have started eight Regional Vocational Training Institutes in which only women employees will be trained.... (*Interruptions*)

SHRI ANIL SHIROLE: Madam Speaker, has the Government considered crowd sourcing to ascertain the skills in demand and infrastructure needed to draw up an appropriate programme of skill development? If so, what are the details if the action proposed?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam, I have already stated that employment generation is the main programme in which we are considering both organized and unorganized sectors, particularly the construction workers. ... (*Interruptions*) Those who have made from informal to the formal sector, we are giving priority for them also. ... (*Interruptions*)

श्री बलभद्र माझी: अध्यक्ष महोदया, जो आंकड़ा दिया गया है कि आज के दिन भारतवर्ष में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ 2.2 प्रतिशत ही रह गया है, यह कहीं न कहीं दुविधा पैदा करता है! ... (व्यवधान) इसमें दर्शाया गया है कि सिर्फ 47 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, इसका बेसिस क्या है? जैसे ग्रामांचल में अनआर्गनाइज़्ड सेक्टर

है जहां किसान खेती करते हैं, यह सरकार के पास डेली वेज लेबरर्स का स्टैटिस्टिक्स कहीं होगा, ऐसा नहीं लगता है । ... (व्यवधान) यह बताया जाए कि कितना डिपेंडेबल है । प्रधान मंत्री रोजगार योजना कब से चालू है, क्योंकि 2013 से इसका स्टैटिस्टिक्स दिया गया है ?... (व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैडम, माननीय सदस्य ने अनइम्प्लायमेंट का जिक्र किया है ... (व्यवधान) There are two surveys. One is the National Sample Survey which is conducted once in five years. The second one is Labour Bureau Survey. ... (*Interruptions*) We are doing quick surveys once in three months. We have made 28 surveys from October 2008 to December 2008 and then from September 2015 to December 2015. ... (*Interruptions*) In these 28 surveys, the overall estimated employment in all these intensive labour sectors had increased upto 38,80,000 employees. ... (*Interruptions*) In the organized sector, we are concentrating on employment generation. ... (*Interruptions*) The Prime Minister has launched many flagship programmes and I have already mentioned about these. For construction workers, RPL scheme is also there. ... (*Interruptions*) We are taking action about data formation. डाटा को कवर करने के लिए हम मजबूती के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा पांच साल के बजाए वीकली, क्वार्टरली डाटा सर्वे करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उस डाटा को रिव्यू करके बेहतर डाटा देने का हमारा प्रयास चल रहा है। ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If you want a discussion, the Government is ready to discuss. ... (*Interruptions*) Please try to understand.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 hours.

11.52 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.02 hours

*The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past
Twelve of the Clock.*

(Hon. Speaker in the Chair)

... (Interruptions)

FELICITATION BY THE SPEAKER

**Congratulations to P.V. Sindhu for winning the women's singles title at
the China Open Super Series Badminton Tournament on
20 November 2016 in Fuzhon, China**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभा की ओर से 20 नवम्बर, 2016 को फुझोय, चीन में आयोजित चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतने के लिए सुश्री पी.वी. सिंधु को बधाई देती हूँ।

यह उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है और हमें उम्मीद है कि वे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।

हम सुश्री पी.वी. सिंधु को भावी प्रयासों में भी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

... (व्यवधान)

12.03 hours**STATEMENT BY MINISTER****Regarding accident of Train No. 19321 Dn. Indore-Rajendra Nagar Terminal (Patna) Express between Pokhrayan and Malasa stations of Jhansi Division of North Central Railway on 20.11.2016**

HON. SPEAKER: Now, Statement by Rail Minister about the accident.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you not want to hear the statement about the accident?

... (*Interruptions*)

12.03 ½ hours

(At this stage, Shri Kanti Lal Bhuria, Shri Kalyan Banerjee, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): Madam, with profound grief, I inform the House of an unfortunate accident of Train No. 19321, Indore-Rajendra Nagar Terminal, (Patna Express) between Pokhrayan and Malasa stations on Jhansi – Kanpur section of North Central Railway at 3.04 hours on 20th November, 2016. ... (*Interruptions*) Fourteen coaches of the train derailed between Pokhrayan and Malasa stations. Three out of these coaches capsized. ... (*Interruptions*)

As per available information, till now 133 passengers lost their lives, 58 passengers sustained grievous injuries and 122 passengers sustained simple injuries in this most unfortunate incident. ... (*Interruptions*)

Immediate efforts were made to provide relief and rescue. Local ambulances were rushed to the site and the injured passengers shifted to nearby hospitals. ... (*Interruptions*) Railways medical vans from Kanpur and Jhansi were moved to the accident site. The General Manager and Chief Safety Officer, North

Central Railway rushed to the site immediately to supervise the relief and restoration works. ... (*Interruptions*) NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE (NDRF) team and Army Battalions also reached the site for rescue and relief operations. The Minister of State for Railways, Shri Manoj Sinha, Member, Rolling Stock, and Member, Engineering also rushed to the site. ... (*Interruptions*) I, along with the Chairman, Railway Board, visited the site of accident and met the injured passengers admitted in the hospital.

On humanitarian grounds, an enhanced ex-gratia amount of Rs. 3.5 lakh each to the next of kin of the deceased, Rs. 50,000 for the grievously injured, and Rs. 25,000 to passengers who sustained simple injuries, is being paid. The hon. PM has also announced additional ex-gratia payment of Rs. 2 lakh to the kin of the dead and Rs. 50,000 for each of the injured passengers. ... (*Interruptions*)

A statutory inquiry by the Commissioner of Railway Safety (CRS) into this accident has been ordered to determine the correct cause of the accident. There shall be a separate comprehensive investigation aided by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. ... (*Interruptions*) The strictest possible action would be taken against the guilty.

All stranded passengers have been moved to the destination by a special train from Malasa station. Adequate help and assistance was provided to the stranded passengers.... (*Interruptions*)

Old-technology ICF coaches already in operation lack the crash-worthy characteristics of modern coaches. I had informed this House during the previous Railway Budget to progressively replace and phase out such coaches. This will be expedited.... (*Interruptions*)

On behalf of the Railways and myself, I express deep condolences to the bereaved families and also express sincere sympathies to the injured. I trust the House will join me in extending heartfelt condolences to the bereaved families.

[Placed in Library, See No. L.T. 5344/6/16]

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : सॉरी, स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक्सीडेंट के बाद भी आप नहीं सुनना चाहेंगे। This is really very sorry.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री मल्लिकार्जुन खडगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमल नाथ, के.सी. वेणुगोपाल, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, प्रो. सौगत राय, सर्वश्री शैलेश कुमार, एन.के. प्रेमचन्द्रन, जितेन्द्र चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, के. एन. रामचन्द्रन, जोस के. मणि और जय प्रकाश नारायण यादव से विभिन्न विषयों पर कार्य स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इनके लिए आज की सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है।

इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (*Interruptions*)

12.07 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and the Ministry of Tribal Affairs for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5326/16/16]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I rise to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (1) Statement regarding Review by the Government of the working of the Engineers India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016.
- (2) Annual Report of the Engineers India Limited, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5327/16/16]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg lay on the Table:-

- (1) A copy of the National Institute of Design (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No.

G.S.R.884(E) in Gazette of India dated 14th September, 2016 under sub-section (2) of Section 40 of the National Institute of Design Act, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 5328/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005:-

- (i) The Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.771(E) in Gazette of India dated 8th August, 2016.
- (ii) The Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.772(E) in Gazette of India dated 8th August, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 5329/16/16]

- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5330/16/16]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 49 of the Tea Act, 1953:-

- (i) The Tea (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 1007(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (ii) The Tea Board (Powers of Chairman and Deputy Chairman) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 1008(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.

- (iii) The Tea Board (Amendment) By-laws, 2016 published in Notification No. G.S.R. 1009(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (iv) The Tea Board (Recruitment, Promotion and Conditions of Service of Officers and Staff) Amendment by-laws, 2016 published in Notification No. G.S.R. 1010(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (v) The Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 1011(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (vi) The Tea Board (Write off Losses) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 1012(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (vii) The Tea (Distribution and Export) Control (Amendment) Order, 2016 published in Notification No. S.O.3317(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (viii) The Tea Warehouses (Licensing) Amendment Order, 2016 published in Notification No. S.O.3318(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (ix) The Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2016 published in Notification No. S.O.3319(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.
- (x) The Tea Waste Control (Amendment) Order, 2016 published in Notification No. S.O.3320(E) in Gazette of India dated 26th October, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5331/16/16]

... (*Interruptions*)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :--

(1) (एक) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा सर्व शिक्षा अभियान, गोवा के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5332/16/16]

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5333/16/16]

(5) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5334/16/16]

(7) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5335/16/16]

(9) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (सर्व शिक्षा अभियान), लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5336/16/16]

(11) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5337/16/16]

(13) (एक) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5338/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :--

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5339/16/16]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5340/16/16]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड, दिमापुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5341/16/16]

(7) (एक) डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5342/16/16]

(9) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (समूह क, समूह ख और समूह ग पद) भर्ती नियम, 2016 जो 13 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 686(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5343/16/16]

12.08 hours

ELECTION TO COMMITTEE

**Agricultural and Processed Food Products
Export Development Authority**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND
INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, I beg to move:

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) and (5) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority Act, 1985, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (d) of sub-section (4) and (5) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority Act, 1985, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder.”

The motion was adopted.

... (Interruptions)

12.08 ½ hours

**MOTION RE: 36TH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, I beg to move:

“That this House do agree with the Thirty-sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 18th November, 2016.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Thirty-sixth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 18th November, 2016.”

The motion was adopted.

... (*Interruptions*)

12.09 hours**GOVERNMENT BILLS ... Introduced
(i) Surrogacy (Regulation) Bill, 2016***

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to constitute National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards and appointment of appropriate authorities for regulation of the practice and process of surrogacy and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, I introduce the Bill.

... (*Interruptions*)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 21.11.2016.

12.10 hours**(ii) Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): On behalf of Shri Nitin Gadkari, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate the laws relating to admiralty jurisdiction, legal proceedings in connection with vessels, their arrest, detention, sale and other matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to consolidate the laws relating to admiralty jurisdiction, legal proceedings in connection with vessels, their arrest, detention, sale and other matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: I introduce the Bill.

... (*Interruptions*)

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 21.11.2016.

HON. SPEAKER: Please go back to your seats. I think you do not want any discussion. You only want the rule. I am sorry to say that you do not want to run the House. It is a very sorry state of affairs.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.11 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy- Speaker *in the Chair*)

... (*Interruptions*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Matters Under Rule 377 shall be laid on the table of the House. The Members who have been permitted to raise Matters Under Rule 377 today, and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

... (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to run a new express train with AC coaches between Bagaha and Patna and also to improve railway services in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand.

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूँ। बगहा रेलवे स्टेशन बिहार-उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और यह पुलिस मुख्यालय भी है। यहाँ से पटना और जिला मुख्यालय जाने के लिए कोई भी अच्छी ट्रेन नहीं है। जिससे यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बगहा से पटना तक नई एक्सप्रेस ट्रेन वातानुकूलित बोगी के साथ प्रतिदिन चलाई जाए, जो बगहा से रात्रि में 10-11 बजे खुले और सुबह-सुबह पटना पहुँचा जाए और पटना से रात में 5-6 बजे खुले और रात में 10-11 तक बगहा पहुँच जाए। बगहा से जिला मुख्यालय तक डेमू ट्रेन दिन भर में दो फेरे लगाती है तो इससे यहाँ के लोगों को काफी सुविधा होगी और रेलवे को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मंत्री जी ने बापूधाम मोतिहारी में 10.06.2016 को घोषणा की कि बहुत ही जल्दी आपकी इन दो चिर-परिचित मॉर्गों को मानते हुए रेलवे बगहा से पटना एक्सप्रेस ट्रेन वातानुकूलित बोगी के साथ प्रतिदिन और जिला मुख्यालय तक डेमू ट्रेन चलाई जाएगी। ये सत्याग्रह की धरती रही है, महात्मा गाँधी जी ने यहीं से सत्याग्रह किया था। भारत सरकार अगले वर्ष सत्याग्रह शताब्दी वर्ष भी मनाने जा रही है। अतः निवेदन है कि बगहा से इन दोनों नई ट्रेनों को जल्द से जल्द आरंभ कराए।

(ii) Need to amend The Prevention of Insults of National Honour Act, 1971 to restrict the display of National Flag in the electoral symbol by political parties.

श्री गोपाल शेड्डी (मुम्बई-उत्तर) : भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना पिंगली वेंकैयानन्द जी ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया, जो 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गयी थी। इसे 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात् भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। हमारे देश में "तिरंगे" का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह न केवल हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रतीक है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय में सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सम्पूर्ण देशवासियों की आशा और अभिलाषा का परिचायक है। अतः यह आवश्यक है कि देश के किसी भी क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे के मध्य में अथवा कहीं भी अपना चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करके उसका निजी उपयोग न किया जाए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण, 1971 में संशोधन किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक गौरव बरकरार बना रहे।

(iii) Need to set up a centre of Lalit Kala Akademi in Meerut, Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : देश में तथा देश के बाहर विश्व में भारतीय ललित कलाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा ललित कला एकेडमी का गठन किया गया। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में इसके छह (6) केन्द्र हैं।

मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक तथा कलात्मक परम्परा का स्वाभावित मुख्यालय है। रामायण काल से लेकर महाभारत काल तथा आधुनिक समय तक यहाँ विशिष्टता सम्पन्न ललित कला की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ है। सम्यक् संरक्षण एवं प्रोत्साहन के द्वारा इन विधाओं का देश तथा दुनिया में विस्तार हो सकता है जो देश के इस भाग के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में ललित कला अकादमी के केन्द्र की स्थापना करने का कष्ट करें।

(iv) Need to expedite construction of Pachnada Barrage Project in Jalaun Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : वर्ष 1996 में जब मैं पहली बार लोक सभा सदस्य निर्वाचित हुआ तब से मैं अपने संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर के माधौगढ़ क्षेत्र में पांच नदियों के संगम पचनदा पर बांध बनवाने की मांग करता आया हूँ। यह क्षेत्र बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है, जो लगभग हर वर्ष सूखा अथवा अतिवृष्टि की समस्या से जूझता आ रहा है। विशेष रूप से जालौन जनपद में सिंचाई के लिए सिर्फ नलकूप, नहर जैसे परम्परागत जल स्रोतों का ही आसरा है जो लगभग सूखे तथा देर से पानी रिलीज करने का कारण किसानों की समस्या दूर नहीं कर पाते। मेरी लगातार मांग के कारण अब पचनदा बांध के स्थान पर पचनदा बैराज परियोजना की डी.पी.आर. बना ली गई है। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्रदेश सरकार को आदेशित कर यह बांध बनवाने का कष्ट करें जिससे मेरे क्षेत्र को सूखे की समस्या से मुक्ति मिल सके।

(v) Need to fix the uniform age of retirement for doctors.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत सरकार में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने की घोषणा पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल का पूरे देश, विशेषकर चिकित्सा समुदाय ने हार्दिक स्वागत किया है किन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना को इस उद्देश्य की प्राप्ति में गंभीर संकट आसन्न दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में चार उपवर्ग है जोकि टीचिंग, नॉन टीचिंग से जनरल ड्यूटी तक विभक्त है एवं इसे प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला वर्ग भी शामिल है। जारी की गई अधिसूचना में प्रशासनिक कार्य आयु एवं सेवानिवृत्त आयु को विहित किया गया है। प्रशासनिक कार्य आयु को 62 वर्ष रखा गया है जबकि सेवानिवृत्त आयु को 65 वर्ष कर दिया गया है। इसका अर्थ यह कि जो चिकित्सक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं जैसे डायरेक्टर, चिकित्सा अधीक्षक, डीन इत्यादि वे सब 62 वर्ष तक ही पदों में रहेंगे एवं सामान्य चिकित्सक तौर पर कार्य करने के अधिकारी होंगे। इस आदेश के फलस्वरूप अनेक विसंगतियां उत्पन्न होंगी जैसे वरिष्ठ चिकित्सक अपने कनिष्ठों से किस स्थिति में होंगे व क्या अब इनका मूल्यांकन कनिष्ठों के रूप में किया जाएगा और क्या इनकी कार्यदशायें कनिष्ठ डॉक्टर तय करेंगे। इन सभी भ्रांतियों के चलते काम-काज में काफी असर पड़ेगा एवं कार्यक्षमता भी प्रभावित होगी एवं वरिष्ठों, कनिष्ठों एवं समकक्षों में एक अघोषित कश्मकश, अविश्वास व घात-प्रतिघात की भावना विकसित होगी।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त अधिसूचना में संभावित एवं दुष्परिणामों को देखते हुए इस पर विचार कर एक उपयुक्त एवं समन्वयकारी अधिसूचना जारी करनी चाहिए जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा से जन कल्याण की पूर्ति हो सके।

(vi) Need to improve services at Centres of Kiosk Banking operated by various Nationalised Banks in Palamu district, Jharkhand.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : पलामू जिले में भारतीय स्टेट बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के अलावा अन्य बैंकों ने गांवों में क्योस्क बैंकिंग के तहत ग्राहक सेवा केन्द्र खोल रखा है। इसमें पांकी, लेस्लीगंज, तरहसी, मनातू, सतबरवा, चैनपुर, हरिहरगंज, छतरपुर, हैदरनगर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज, पाटन, पडवा, सहित पलामू जिले के कमोबेश सभी प्रखंडों में लगभग 200 क्योस्क सेंटर खोले गए हैं। यहां गरीब किसान, छात्र एवं छोटी पूंजी के लोगों के खाते खोले गए हैं। इन्हीं केन्द्रों से बहुवांछित प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत गरीबों व बैंकों से दूर रह रहे लोगों को बैंक में खाता खोलकर जोड़ा गया है। क्योस्क बैंकों में अधिकांश गरीबों के ही खाते हैं। इन खातों में ही बच्चों की छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, विकलांग पेंशन, सहित विभिन्न योजनाओं की राशि का लेन-देन होता है। इन्हीं खातों से ग्रामीण क्षेत्रों में राशि का जमा-निकासी की जाती है। लेकिन ये क्योस्क बैंक अधिकतर बंद ही रहते हैं। इन केन्द्रों से पैसों की जमा निकासी तो दूर संचालकों से मुलाकात भी मुश्किल हो गयी है। क्योस्क बैंकों के बंद रहने से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व असहायों के समक्ष विकट स्थिति पैदा हो गई है। उन्हें बे-वजह भटकना पड़ रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्योस्क बैंक के संचालकों को सख्ती से बैंक की शाखाओं को संचालित करने हेतु निर्देशित करे जिससे क्योस्क बैंकिंग का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके तथा दूर-दराज के गांवों के लोगों को बैंकिंग का लाभ भी मिल सके।

(vii) Need to have a Uniform Civil Code in the country.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना की आंकड़ें चौंकाने वाले हैं। जनगणना के आंकड़े जनसांख्यिकी असंतुलन की जिस खतरनाक चेतावनी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को उसके प्रति मौन नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के खतरनाक जनसांख्यिकी असंतुलन के प्रति दुनिया का कोई भी सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र चुप नहीं रह सकता। सनातन हिन्दू धर्म के साथ-साथ सिक्खों और बौद्धों की संख्या में हो रही तीव्र कमी तथा मुस्लिम आबादी में लगातार हो रही तीव्र बढ़ोतरी जनसांख्यिकी असंतुलन की जिस खतरनाक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करती है वह चौंकाने वाली है। सम्भवतः भारत दुनिया के उन चन्द देशों में होगा जहां इस प्रकार के खतरनाक दुष्प्रवृत्ति पर मौन बना हुआ है। दुनिया के अंदर किसी भी राष्ट्र के भाग्य का फैसला वहां का बहुसंख्यक समाज करता है लेकिन जब बहुसंख्यक समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा तो न केवल उस राष्ट्र की एकता और अखण्डता के सामने गंभीर चुनौती होगी अपितु लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा। वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आलोक में देश के अन्दर एक समान नागरिक कानून तथा जनसंख्या नियंत्रण के एक प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

कृपया पूरे देश के अन्दर एक समान नागरिक संहिता एवं जनसंख्या नियंत्रण का एक प्रभावी कानून लागू किया जाए।

**(viii) Need for development of solar and wind energy projects
in Himalayan States.**

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : आज संपूर्ण देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। देश की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि की सफलता देश में उपलब्ध ऊर्जा पर निर्भर करती है। अगर देश की अर्थ-व्यवस्था को विश्व में हमें तेजी से बढ़ाना है तो पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देश के ऊर्जा संकट से न केवल घरेलू उपभोक्ता परेशान है बल्कि उद्योगों के विकास पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गंभीर ऊर्जा संकट के मद्देनजर देश के समस्त हिमालयी राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की परियोजनाओं का विकास नितांत आवश्यक है। मौसम परिवर्तन क्षेत्र की संवेदनशील परिस्थिति के दृष्टिगत हाइड्रो, सोलर-विन्ड जैसी परियोजनाओं के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय नीति के साथ-साथ राज्यों को मिनी, माइक्रो प्रोजेक्टों हेतु स्थानीय जनता को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का पलायन रुकेगा बल्कि क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन का सूत्रपात होगा। साथ ही इन योजनाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करके इनसे जहां देश का ऊर्जा संकट मिटेगा वहीं संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। समृद्ध और श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में स्पष्ट नीतियों का सृजन आवश्यक है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि समूचे हिमालयी क्षेत्र में सर्वेक्षण करवाकर पंचायत स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्थान चिन्हित किए जाएं तथा स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी इन परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि हिमालयी क्षेत्र ऊर्जा के संकट से निजात पा सके।

(ix) Need to convert National Highway Nos. 76 and 86 passing through Hamirpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh into four lane.

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ.प्र.) आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सड़क परिवहन में समग्र सुधार हेतु आपात योजना के रूप में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-86 और एन.एच.-76 हैं। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन के हैं जिनको 4 लेन का बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कबरई नगर के मध्य से एन.एच.-86 गुजरता है और सभी चौपहिया और भारी वाहन नगर से होकर गुजरते हैं जिसके कारण भारी जाम जरूरी है। अतः एन.एच.-86 पर कबरई नगर में सड़क बाईपास बनाया जाना जरूरी है। इसी तरह की स्थिति एन.एच.-86 पर स्थित नगर सुमेरपुर, एन.एच.-76 पर स्थित कुलपहाड़ नगर, पनवाड़ी नगर और मध्य प्रदेश के हरपालपुर तथा एन.एच.-86 और एन.एच.-76 दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित महोबा नगर में है। इन सभी स्थानों पर भी सड़क बाईपास बनाये जाने की नितांत आवश्यकता है। इसके साथ एन.एच.-76 पर स्थित सूपा रेलवे क्रॉसिंग, किराड़ी रेलवे क्रॉसिंग और मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के हरपालपुर नगर रेलवे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. जरूरी है। इन नवीन सड़क निर्माण के साथ-साथ प्रमुख खस्ताहाल राजकीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर मार्गों को सुधारने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि बुंदेलखण्ड में सड़क संरचनाओं के सुधार के लिए मिशन मोड में समग्र योजना बनायी जाए साथ ही इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चिकित्सकीय सुविधा सहित मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जाये जिससे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सड़कें रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन का माध्यम न बने अपितु इन सड़कों के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हो और बुंदेलखण्ड विकास की नवीन संभावनाओं का क्षेत्र बन सके।

(x) Need to construct Railway Over Bridge at railway crossing No. 385B in Rampur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत मिलक रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इस स्टेशन के यार्ड में गेट सं.-385 बी होने के कारण प्रतिदिन मालगाड़ी यार्ड में आकर खड़ी हो जाती है और कभी-कभी तो 24 से 72 घंटे तक खड़ी रहती है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल जाना, बीमारों को अस्पताल जाना तक बंद हो जाता है। कई बार विद्यार्थी व पैदल यात्री मालगाड़ी के नीचे से निकलते हैं जिससे उनकी जान को खतरा रहता है और हादसे के अवसर बढ़ जाते हैं। जिसमें जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग पटवायी-शाहबाद-बिलारी जाने-आने का एकमात्र रास्ता है और यहां ट्रैफिक जाम बहुत होता है। तहसील मुख्यालय को जोड़ने के लिए भी लगभग 85 गाँव इस रास्ते को जोड़ते हैं और इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएँ भी हो चुकी हैं। कभी-कभी तो मृत लोगों को शमशान घाट ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहां के दुकानदारों व व्यापारियों का फाटक बंद होने के कारण बहुत नुकसान होता है। इस वजह से व्यापार भी आधा रह गया है। रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए कई बार धरने-प्रदर्शन भी हो चुके हैं। कई बार सरकार को पत्र भी लिखे जा चुके हैं परंतु पुल के निर्माण की उपेक्षा होती रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जन भावनाओं व आक्रोश को देखते हुए यहां पर आर.ओ.बी. की आवश्यकता है। पुल का निर्माण कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। मैं पुनः सरकार से शीघ्र पुल निर्माण के लिए अनुरोध करता हूँ।

(xi) Need to include airports in Leh, Kargil, Ladakh, Andaman and Lakshadweep in the Regional Connectivity Scheme

SHRI THUPSTAN CHHEWANG (LADAKH): The issue of subsidizing air travel to and from Ladakh to Delhi, Jammu and Srinagar figured in almost every session of Lok Sabha for a number of years through Questions, under Rule 377 and during Zero Hour. Besides the matter was brought to the notice of Hon'ble Prime Minister & the Ministers of Civil Aviation and officials of the concerned Ministries. The issue was discussed in detail in the Consultative committee of Civil Aviation Ministry while discussing draft proposal of the new air policy. All the members of the Consultative Committee unanimously recommended that all airports in Ladakh region of J&K State, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep should be included in the Regional air connectivity scheme for the purpose of gap funding to control the exorbitant high rates of airfare on these sectors for the reason that commuters on these sectors have no choice but to travel by air as there is no road connectivity and railway services. The issue failed to find a mention in the regional connectivity scheme announced recently. I request the Government of India to include Leh, Kargil and the airports in Ladakh, Andaman & Lakshadweep in the Scheme to serve the remote regions.

(xii) Need to regularise the services of para teachers in Jharkhand and also enhance their honorarium.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : आज देश में निजी विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, परन्तु हम सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। परन्तु कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसे हम अपग्रेड करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। वर्तमान में झारखण्ड में लगभग 50000 से अधिक पैरा-टीचर बच्चों को शिक्षा देने में कई स्तरों पर कामयाब हो रहे हैं, जो विलेज एजुकेशन कमेटी के नियंत्रण में कार्य करते हैं और झारखण्ड में ऐसे शिक्षकों-विद्यार्थियों का अनुपात 1:40 है। यानी इन शिक्षकों के सहारे सरकारी विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है, परन्तु इनका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए पैरा-टीचर्स की परेशानियों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। समय-समय पर इस प्रदेश में पैरा शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन किए गए और आज की तारीख में न तो उनकी भविष्य निधि की कटौती होती है न उनको बीमा पॉलिसी मिलती है, न ही छुट्टी ग्रांट होती है और न ही समय पर मानदेय का भुगतान होता है। कमोबेश इन्हीं पैरा-टीचर्स के बल पर पूरे झारखण्ड में शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हमारे पास संसाधनों की कमी जरूर है, परन्तु हमें गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। ऐसी स्थिति में पैरा-टीचर्स की सेवाएं नियमित करने के पश्चात् हम झारखण्ड या देश में नियमित शिक्षा व्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि पैरा-टीचरों को स्थायी करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए।

(xiii) Need to reduce the weight of school bags

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : देश के नौनिहालों की पीठ पर किताबों के भारी बोझ वाला बस्ता उनके स्वास्थ्य पर खराब असर डालने के कारण चर्चा का विषय बना रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण ने इस तथ्य को और पुरख्ता कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भारी बस्ता ढोने वाले 7 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के 68 प्रतिशत स्कूली बच्चों को पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है।

एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्वास्थ्य देखभाल समिति के तहत कराए गए हालिया सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 7 से 13 वर्ष की आयु वर्ग के 88 प्रतिशत छात्र अपनी पीठ पर अपने वजन के 45 प्रतिशत से अधिक भार ढोते हैं, जिनमें क्रिकेट किट, आर्ट किट, स्केट्स, ताईक्वांडो तथा तैराकी से संबंधित सामान आदि शामिल है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान हो सकता है और पीठ संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इन बच्चों को स्लिप डिस्क, स्पांडलाइटिस, पीठ में लगातार दर्द, रीढ़ की हड्डी के कमजोर होने और कूबड़ निकलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकतर अभिभावकों ने शिकायत की कि उनके बच्चे दिन में औसतन 20 से 22 किताबों और 7 से 8 पीरियड की कॉपियां लेकर जाते हैं।

बाल स्कूली बस्ता अधिनियम-2006 के अनुसार स्कूल के बस्ते का वजन बच्चे का वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस्ते के वजन को ढोते-ढोते बच्चा मानसिक रूप से थक सकता है तथा उसकी पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ सकता है।

इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि वह स्कूल के प्राधिकारियों को बस्तों के संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश जारी करें तथा अभिभावकों को भी इस बारे में जागरूक करने हेतु तत्काल ठोस कदम उठाए।

**(xiv)Need to ensure timely repair, inspection and
maintenance of railway tracks**

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Indian Railways is the lifeline of the nation and has been widely acclaimed for providing connectivity and integration necessary for a balanced regional development. Measured in Kilometers, Indian Railway lines rank fourth in the world in length. The Indian Railways has been working ceaselessly for the past so many decades and the rail traffic has increased manifold but under-investment and poor maintenance have taken their toll. We have seen recurring derailments across the country and more recently the derailment of 12 bogies of Thiruvanthapuram-Mangalore Express No. 16347 between Aluva and Karukutty stations in Ernakulum District. These derailments appear to have been caused by poor maintenance of railway lines. I urge upon the Railway Minister to take urgent steps to ensure regular inspection of railway lines and timely repair and maintenance so that accidents do not recur for want of maintenance and lives of thousands of innocent passengers are not put at risk.

(xv) Need to grant permission for development of infrastructure in tribal colonies of Chamarajanagar Parliamentary Constituency in Karnataka

SHRI R. DHYUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I would like to bring to the kind attention of the Government that Chamarajanagar District and part of Mysore District come under my Lok Sabha Constituency. In Chamarajanagar District, there are 31,558 Tribals living in 148 Tribal Colonies and in H.D.Kote Taluk of Mysore District, 56,601 Tribals are living in 107 Colonies. As per Forest Rights Act, we have issued 2,430 individual benefit (Land Patta) covering 4,023 hectares extension of lands and 39 Community benefits. Under State Sector since 2013-14, huge grant has been released for infrastructure development like construction of new houses, repair of old houses, drinking water facilities, road connectivity and construction of culvert/bridges etc. Further, as they have no R.T.C on their agricultural land, bank authorities are not sanctioning loan for development of agricultural activities and also for drilling borewells.

As per Forest Rights Act, the above infrastructure development works should be implemented in Tribal Colonies. But the Officers of Forest Department are not implementing the above works for one or the other reasons. Hence the Tribes are not getting the benefits under the Forest Rights Act.

For the reasons explained above, I hereby urge the Union Government to grant permission for infrastructure facilities and also sanction Bank loans for agricultural purpose and for drilling borewells in Tribal Colonies of my Constituency.

(xvi) Need to allow Primary Cooperative Credit Societies and District Central Cooperative Banks to accept the demonetized Currency notes

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): In Tamil Nadu there are at present 4474 Primary Cooperative Credit societies serving the poor agriculturists and village workers. They are attached to 23 District Central Cooperative Banks and Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank. During the year 2015-16, about Rs. 40028 crores of credit disbursements were made through these cooperative banks.

Due to demonetization of Rs. 500, 1000 currencies RBI has issued instructions that DCCBs are not authorized to collect Rs. 500 and 1000 demonetised notes from the customers. They are also barred from accepting demonetized notes for exchange. Further the DCCBs are not allowed to make payment more than Rs. 24000 from an account. In this scenario, DCCBs are not able to lend to PACCs and because of this, PACCs are not able to lend to its members any crop loan or agro based loan during this very crucial crop season. This has caused a lot of hardships to farmers to carry out time-bound agricultural works and this may lead to crop failure and cause loss to the farmers during this crop season.

Due to the shortage of new currencies, the borrowers of DCCBs are not able to repay their loan on due date. For this, the overdue and NPA of DCCBs will also increase. The Jewel Loan borrowers of PACCs and DCCBs are not able to redeem their jewels pledged. This has brought an unrest among the borrowers of DCCBs and PACCs.

Therefore, I urge the Union Government to permit DCCBs and PACCs to accept demonetized notes from the borrowers against their loan and allow PACCs to avail credit facility from DCCBs to lend to its members.

**(xvii) Regarding upgradation and expansion of Thoothukudi
Railway station in Tamil Nadu**

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): Thoothukudi is an important port city in the country and is the industrial hub of south Tamil Nadu. Thoothukudi being a very active port city generates lots of revenue for Railways through freight services, yet the Rail Passenger Services are inadequate to meet the needs of the people of my Thoothukudi constituency.

The Railway station at Thoothukudi is having shortcomings with respect to general amenities and other conveniences. The Railway platforms are not wide enough to cater to the needs of the trains which stop at the present Station. There is an urgent need to shift the Railway Station from the current location to Milavittan Railway station located few kilometers away from the present station. This will certainly provide the Railway station with enough space and extended platforms so that people can alight and use without any trouble. Further, the upgradation and expansion of the railway station is possible only if the station is shifted to Milavittan.

Therefore, I urge the Union Government to take appropriate action to shift the Railway Station from the present location to Milavittan.

(xviii) Need to review the decision on demonetization of currency notes

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): About 40 people died during the exercise to change their hard earned money from the crowded ATMs/bank branches in the country since the government's decision to demonetize the high value currencies. This proves the decision was taken without adequate planning and preparation and this has caused immense hardship to the common man who have to stand in queues before banks for hours and now have been denied the right of withdrawing their own hard earned money from banks. All of us are against black money and totally for recovery and unearthing of black money hoarded both in the country and abroad. Section 26(2) of Reserve Bank of India Act of 1934 allows the Centre to declare that "any series of bank notes of any denomination ceases to be legal tender". The decision was totally a violation of the existing RBI Act. The ATMs are running out of money and most of them are non functional. People in the organized and unorganized sectors including farmers, labourers, small traders etc., are being put through enormous difficulties. The Retail, vegetable, fish markets are closing down.

I would request the Prime Minister to check all records going back to 1947 and to investigate the role of the government machinery in generating unaccounted income. I would ask the Government to withdraw the anti people decision forthwith in public interest and normalcy be returned to the economy so that money is available in the system and the financial anarchy and emergency is put to an end and the constitutional rights of the people are upheld.

(xix) Need to accord notified depot status to FCI Depot at Borivali in Mumbai

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): There is a FCI depot at Borivali, Mumbai which has been in operation for the last fifty years. The foodgrains from this depot are regularly supplied to Mumbai city and its suburban areas, districts of Thane and Palghar. But somehow this depot has not been notified which is creating a lot of problems for distributing foodgrains to these areas in time. On the contrary, Depots which were started after Borivali FCI Depot in other parts of Maharashtra have been given notified depot status.

Further, it is pertinent to mention here that depots at Pune, Gondia, Nagpur were brought under notified categories way back in 1991 whereas the biggest FCI depot at Borivali has not yet been notified for the reasons best known to the minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Initially these depots functioned under the Regional Director of Food. After creating the Food Corporation of India, 1000 employees were brought under the administration of FCI. It is requested that both the FCI depot at Borivali as well as employees be brought under the umbrella of the notified category.

Since the Borivali depot has not been notified, nearly 388 labourers who have been working for the last 50 years are being transferred arbitrarily to other parts of Maharashtra and contract labourers will be recruited in their places. The tender for supplying contract labourers is being prepared.

Therefore, I would request the Ministry of consumer Affairs, Food and Public Distribution to notify the Borivali FCI Depot as a notified category immediately so that foodgrains could be supplied to more and more areas on a permanent basis. In the meantime, I would request the Ministry to keep the tender for supplying labour in abeyance till a final decision is taken on the above issues.

(xx) Need to accord cabinet approval for special Financial Package to Andhra Pradesh

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): As a substitute for the Special Category Status (SCS), the Union Government on 07 September, 2016 has announced Special Financial Package for Andhra Pradesh for fulfilling the assurances made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. The Special Financial package provides for 100 per cent funding of Polavaram national irrigation project, tax concessions and special assistance etc.

There is a need to accord Cabinet approval for special Financial Package and also to fulfill all assurances made in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014.

(xxi) Regarding problems of district cooperative banks and agriculture credit societies in Kerala in the wake of demonetization

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): In Kerala, the cooperative banks, with different categories (state, district, primary etc) and hundreds of their branches (at least 1,500) have been the lifeline of people in rural areas for decades. But with demonetization, there is a literal freeze on their functioning because they are neither allowed to receive invalidated Rs. 500 and Rs. 1,000 currency notes from their customers nor receive fresh cash from the RBI in exchange of their own reserve to continue daily operations. The cooperative banking system that holds more than RS 60,000 crores in deposits and has disbursed more than Rs. 30,000 crore in loans has been paralysed because both the Reserve Bank of India (RBI) and the Ministry of Finance are suspicious of their dealings.

Unlike in the case of nationalized and private banks, it is not a question of long queues or hassles, but a total collapse. Weddings, funerals, education and even daily survival are affected. Reportedly, some banks are left with only a few thousand rupees in valid currency. Hence, any disruption in the sector would result in irreparable damage to the state's economy. To add salt to injury, Income Tax Department was showing an antagonistic approach towards the cooperatives in the state.

I urge the Centre to allow district cooperative banks and primary agriculture credit society to exchange demonetized currency notes.

**(xxii) Regarding alleged violation of labour laws by
ITC Paper Mill in Telanagana**

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM). The irregularities in ITC PSPD Sarapaka (v), Burghamphad (Mandal), Khammam, Telangana is a violaton of labour laws. The ITC Paper MILL has 1500 permanent employees and 5500 contract employees. According to government rules, the company should engage 4800 permanent employees for the production of 7,40,000 mt, but the company is running with 1500 permanent employees. It is a kind of labour exploitation and violation of labour laws. While establishing the company with huge concessions from Govt., the authorities of ITC had given assurance to provide employment to the Scheduled tribes and poor people of the local area, but, only 0.5% (half percent) of the total employees are Scheduled tribes including the contract workmen. I, therefore, urge upon the Government to take urgent measures by appointing Inter-Ministerial Committee to look into irregularities of ITC Paper Mill in Telangana.

(xxiii) Need to set up an ESIC Multi-Speciality Hospital in Bhagalpur, Bihar.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर) : बिहार राज्य के भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कोई अस्पताल नहीं है। भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में जाना जाता है जहां के बुनकरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है लेकिन कम आय वर्ग के कर्मचारी जो कि असंगठित क्षेत्र के हैं तथा अन्य ऐसे ही मजदूरों के इलाज नहीं हो पाने की स्थिति में इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं होता है जहां वे अपना इलाज करा सकें। भागलपुर अब स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित है जहां केन्द्र सरकार के स्तर से मिलने वाली हर सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन है। अतः यहां पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के इलाज हेतु ई.एस.आई.सी. के अस्पताल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः भारत सरकार से मेरी मांग है कि बिहार राज्य के भागलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा प्रदान करने के लिए मंजूरी देने का कार्य करे ताकि कम आय वर्ग के मजदूरों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

14.0 ½ hours

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 11 A.M. tomorrow.

14.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 22, 2016/Agrahayana 1, 1938 (Saka)
